



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 कार्तिक 1936 (श0)
(सं0 पटना 907) पटना, सोमवार, 10 नवम्बर 2014

सं0 3-ए-1-मुक0-111/2014-10178-वि0
वित्त विभाग

प्रेषक,

प्रभात शंकर,
विशेष सचिव, वित्त विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0) बिहार,
महालेखाकार कार्यालय,
वीरचंद पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक 10 नवम्बर 2014

विषय:- यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक, स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से स्वीकृत वेतनमान रू0 4000-6000 को संशोधित करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अधीन यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक पद के लिए फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर संकल्प सं0-660 दिनांक 08/02/1999 के द्वारा दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से रू0 4000-6000 के वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संघ द्वारा अपनी नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण एवं कर्तव्य-दायित्व के साथ कमतर योग्यता वाले पदों प्रयोगशाला प्रावैधिज्ञ, एक्स-रे-प्रावैधिज्ञ तथा महिला स्वास्थ्य परिदर्शक को स्वीकृत उच्चतर वेतनमान (रू0 4500-7000) के आधार पर यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक के लिए रू0 4500-7000 की स्वीकृति हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-15856/2004 दायर किया गया ।

3. उक्त याचिका के संदर्भ में दिनांक 22/08/2014 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोगशाला प्रावैधिज्ञ, एक्स-रे-प्रावैधिज्ञ के समान वेतनमान, यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक के लिए स्वीकृत करने का निदेश दिया गया । प्रयोगशाला प्रावैधिज्ञ, एक्स-रे-प्रावैधिज्ञ के लिए दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव

से रू0 4500-7000 का वेतनमान स्वीकृत था जबकि यक्ष्मा परिदर्शक के लिए रू0 4000-6000 का वेतनमान स्वीकृत किया गया था ।

4. उक्त निदेश के अनुपालन के क्रम में दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक के लिए स्वीकृत वेतनमान रू0 4000-6000 को 4500-7000 में संशोधित करने का विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

5. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक के लिए दिनांक 01/01/1996 से स्वीकृत वेतनमान रू0 4000-6000 को संशोधित करते हुए रू0 4500-7000 की स्वीकृति प्रदान किया जाता है । चूँकि वर्तमान में दिनांक 01/01/2006 से वेतनमान पुनरीक्षण किया जा चुका है अतएव दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 4500-7000 का प्रतिस्थानी पे बैन्ड-1 (5200-20200) एवं ग्रेड पे 2800/- की संशोधित स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

6. उपर्युक्त स्वीकृति के पश्चात अंतर राशि का भुगतान 01/01/1996 से वैचारिक तथा 01/04/97 से वास्तविक रूप से एवं 01/01/2006 से पुनरीक्षित अंतर राशि का भुगतान दिनांक 01/01/2006 से वैचारिक रूप से तथा 01/04/2007 से वास्तविक रूप से किया जाएगा ।

विश्वासभाजन,

प्रभात शंकर,

सरकार के विशेष सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 907-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>